

**विश्वविद्यालय वार्षिक प्रतिवेदन समिति**  
**University Annual Report Committee**  
**डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)**  
**DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)**  
**(केन्द्रीय विश्वविद्यालय A CENTRAL UNIVERSITY)**



ई-मेल : [annualreport.dhsgsu@gmail.com](mailto:annualreport.dhsgsu@gmail.com)  
दूरभाष क्र. : (07582) 264303

पत्र क्र./वि.वा.प्र.स./2015-16/25

दिनांक : 20.09.2016

20/09/2016

निविदा आमंत्रण

विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16 के मुद्रण के लिए प्रतिष्ठित एवं अनुभवी मुद्रकों/प्रकाशकों/फर्मों से मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। मुहरबंद निविदायें कोटेशन हिन्दी अधिकारी, राजभाषा प्रकोष्ठ, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर-470003 मध्यप्रदेश को दिनांक 30 सितम्बर, 2016 अपराह्न 05:00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाने चाहिये। मुद्रण हेतु आवश्यक विशिष्टताएँ निम्नलिखित प्रकार है :-


1.	प्रतिवेदन की प्रतियों की संख्या	1000 मात्र
2.	प्रतिवेदन का आकार	ए-4
3.	मल्टीकलर पेज (आगे-पीछे)	लगभग 24
4.	मल्टीकलर पेज कागज	130 (सिनार)
5.	प्रतिवेदन में पृष्ठों की संख्या	500 लगभग
6.	कवर पेज	मल्टीकलर दोनों तरफ लेमिनेशन के साथ (300 जीएसएम) यूवी इफैक्ट के साथ
7.	कागज(श्वेत-श्याम)	80 जीएसएम मेट पेपर
8.	बाइंडिंग	परफेक्ट
9.	कम्पोजिंग एवं कवर डिजाइन	मुद्रक की ओर से
10.	प्रति 8 पेज(श्वेत-श्याम) दर	अलग से उल्लेख करें
11.	प्रति 8 पेज(मल्टीकलर) दर	अलग से उल्लेख करें
12.	मुद्रित होने वाली सामग्री	विश्वविद्यालय द्वारा सॉफ्ट कॉपी में
12.	आदेश प्राप्त होने के कार्य निष्पादन हेतु निर्धारित समय	30 दिन

**नोट:** मुद्रण के उपरान्त प्रतिवेदन बिना किसी अतिरिक्त व्यय के हमारे कार्यालय में देना होगा।

## नियम व शर्तें -

1. महज न्यूनतम राशि के प्रस्ताव से मुद्रक/प्रकाशक/फर्म कार्यादेश प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। सक्षम समिति/प्राधिकारी किसी भी निविदा को विशिष्टताओं (Specifications) के अनुपालन, फर्म के कार्यानुभव, प्रामाणिक कार्यक्षमता, ब्रांड प्रतिष्ठा, अतिरिक्त/विशेष प्रस्ताव एवं उचित मूल्य के आधार पर चयनित करेगी। इच्छुक मुद्रक/प्रकाशक/फर्म कोटेशन के साथ नमूना अवश्य संलग्न करें।
2. निविदाओं को केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से ही स्वीकार किया जायेगा। हाथों-हाथ/फैक्स/ई-मेल/कोरियर आदि से प्रेषित निविदाओं स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. सभी निविदाकर्ताओं को निविदा के साथ धरोहर राशि रु. 6000/- (रु. छह हजार मात्र) जमा करना अनिवार्य है। निविदा स्वीकृति के उपरान्त सफल निविदाकर्ता को कार्यादेश प्राप्त करने से पूर्व प्रदत्त कार्य की कुल राशि का 10 प्रतिशत सुरक्षा राशि के रूप में कार्यालय में जमा करना होगा जिसे धरोहर राशि के साथ भी समायोजित की जा सकती है।
5. धरोहर राशि एवं सुरक्षा निधि बैंक मांग पत्र/सावधि जमा/बैंक गारण्टी के रूप में ही मान्य होगी।
6. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दो अलग-अलग सीलबन्द लिफाफों में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त दोनों निविदाओं (तकनीकी एवं वित्तीय) को एक सीलबन्द बड़े लिफाफे में भेजना होगा।
7. तकनीकी निविदा में धरोहर राशि, मुद्रण का नमूना, पूर्व में किए गए कार्यों का विवरण, उपलब्ध मशीनरी : ऑफसेट मशीन, कटिंग मशीन, बाइंडिंग मशीन, कम्प्यूटर, स्केनर आदि की उपलब्धता, सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन कार्य करने के अनुभव का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। फर्म/प्रकाशक/मुद्रक के पास टिन एवं पैन संख्या अवश्य होनी चाहिए।
8. वित्तीय निविदा में निविदाकर्ता भुगतान हेतु अपने बैंक खाते का पूर्ण विवरण अनिवार्यतः दें।
9. मुख्य दर में यदि कोई कर/छूट भी सम्मिलित है तो वित्तीय निविदा में उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये। स्पष्ट उल्लेख न होने पर करों को मुख्य दर में सम्मिलित समझा जायेगा।
10. कार्य के निष्पादन हेतु निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण न होने पर फर्म/मुद्रक/प्रकाशक को दण्ड स्वरूप प्रतिदिन कार्यादेश की राशि के 1 प्रतिशत की दर से अधिभार देना होगा। अधिकतम अधिभार की सीमा 5 प्रतिशत तक होगी।
11. विश्वविद्यालय के हित में, आवश्यक होने पर, कार्यादेश में अतिरिक्त नियम व शर्तें जोड़ी जा सकते हैं।
12. विश्वविद्यालय किसी भी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकारने/नकारने या किसी भी समय कम मूल्य का प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसे स्वीकार करने हेतु स्वतंत्र

- होगा। विशिष्टताओं में या अन्य किसी भी प्रकार के परिवर्तन/निरस्तीकरण का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
13. कोटेशन से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में सभी विधिक मामलों की सुनवाई हेतु न्याय का क्षेत्राधिकार, सिविल न्यायालय, सागर होगा।
  14. अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण कार्य का भुगतान देय नहीं होगा।
  15. निविदा की नियम एवं शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्तें निविदा के लिए मान्य नहीं होगी।
  16. प्रकाशन के पूर्व लिखित में प्रूफ मान्य किया जाना वांछित है।
  17. प्रतिवेदन के आकार, डिजाइन, कागज एवं अन्य जानकारी के लिये इस विभाग में आकर प्रतिवेदन की प्रति देखी जा सकती है।
  18. कार्य निष्पादन हेतु किसी प्रकार की अग्रिम राशि देय नहीं होगी।
  19. प्रतिवेदन के मुद्रण हेतु अनुमानित राशि रु. 300000/—(रु. तीन लाख मात्र) होगी जो कम या अधिक भी हो सकती है।
  20. तकनीकी रूप से उचित पायी गयी निविदाओं में से न्यूनतम दर वाली निविदा को ही कार्यदेश दिया जावेगा किंतु उसके पूर्व चयनित फर्म से कुल क्रयादेश राशि की दस प्रतिशत की सुरक्षा निधि राशि का धनादेश जो कि "कुलसचिव, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)" के नाम देय होगा, जमा करना होगा। उक्त सुरक्षा निधि, कार्य पूर्ण होने के पश्चात 45 दिन में वापिस कर दिया जावेगा। यदि कार्य समय पर एवं गुणवत्ता पूर्वक न हुआ तो यह राशि जब्त कर ली जावेगी।
  21. यदि चयनित निविदाकर्ता निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण करने में असमर्थ होता है, तो विश्वविद्यालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस कार्य को किसी अन्य मुद्रक/फर्म/प्रकाशक से संपादित करवा ले। इस हेतु आयी अतिरिक्त लागत का भुगतान उक्त चयनित निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि से समायोजित किया जा सकेगा।
  22. मुद्रण के उपरान्त प्रतिवेदन बिना किसी अतिरिक्त व्यय के हमारे कार्यालय में देना होगा।

 19/9/16  
(अध्यक्ष)

वार्षिक प्रतिवेदन समिति 2015-16